

## इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम-नवरत्न)

#### INDIAN RAILWAY CATERING AND TOURISM CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Enterprise-Navratna)

"CIN-L74899DL1999GO1101707", E-mail: info@irctc.com, Website: www.irctc.com

No. 2019/IRCTC/CS/ST.EX/356

August 31, 2025

**BSE Limited** 

(Through BSE Listing Centre)

1<sup>st</sup> Floor, New Trade Wing, Rotunda Building Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street Fort, Mumbai – 400 001

Scrip Code: 542830

National Stock Exchange of India Limited (Through NEAPS)

"Exchange Plaza", C-1, Block-G,

Bandra-Kurla Complex,

Bandra (East), Mumbai – 400 051

Scrip Symbol: IRCTC

Sub: Newspaper Advertisement regarding Chairman's Speech delivered to the

Shareholders at 26<sup>th</sup> Annual General Meeting of the company held on August 30,

2025.

Sir/ Madam,

Please find enclosed herewith copies of newspaper advertisements regarding Chairman's Speech delivered to the Shareholders at 26<sup>th</sup> Annual General Meeting of the company held on **Saturday, August 30, 2025** 

This is for your information and record please.

Thanking You

Yours faithfully, For Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited (IRCTC)

(Suman Kalra)

**Company Secretary and Compliance Officer** 

Membership No: FCS 9199

Encl: As above.

## **Electronics Mfg Employs** 2.5 m in India: **Vaishnaw**



'Govt working on bringing home manufacturing of each mobile component'

#### **Our Bureau**

New Delhi: The electronics manufacturing sector has grown to employ 2.5 million people in the country, electronics and information technology minister Ashwini Vaishnaw said on Saturday.

At the inauguration of Optiemus Infracom's tempered glass manufacturing facility in Noida — the first in the country - Vaishnaw said the government is working on bringing home the manufacturing of each component that goes into a mobile phone. The facility will churn out chemically treated tempered glass engineered by Corning Inc., Ashok Gupta, executive chairman of Optiemus, said, adding that the company will also tap into the

\$60-billion global market India's mobile phone market requires 500 million pieces of tempered glass every year, which is set to double in the next five years, according to the ministry.

#### **CORNING FACTORY SOON**

The minister said Corning would begin manufacturing the cover glass used in mobile phones at Chennai plant by December. The plant will do the finishing of cover glass, Sudhir N Pillai, MD and president for India, Middle East and Africa, said

**PRINCIPAL RULES** Finance ministry seeks to replace existing limit of 74% foreign investment with 'as stipulated by the Insurance Act, 1938'; Awaits Parliamentary approval

# **Govt Issues Notification for Fast** Pacing 100% FDI in Insurance

New Delhi: The finance ministry has issued a notification paving the way for quick implementation of 100% foreign investment in the insurance sector once it receives parliament approval

As per the notification, the Indian Insurance Companies (Foreign Investment) Amendment Rules, 2025, seek to replace the existing limit of 74% foreign investment with "as stipulated by the Insurance Act, 1938".

"In the principal rules, in rule 3, the words 'to exceed 74% of the paid-up equity capital of such Indian insurance company' shall be substituted with the words 'to exceed the limit as stipulated by the Insurance Act, 1938'," said the notification issued on August 29.

The foreign investment proposals of the Indian insurance com**Amendment Rules, 2025** BACKGROUND: Govt. announced 100% **KEY CHANGES:** Aligned with latest in insurance in Foreign Exchange Management (Non-Debt INSURANCE Insurance Instrument) Rules, 2019 Existing 74% paid-up equity (Amendment) capital, replaced with Bill yet to be "as stipulated by the ntroduced in the Insurance Act 1938"

pany shall be allowed on the automatic route for the paid-up equity capital as stipulated by the Insurance Act, 1938, subject to verification by the Insurance Regulatory and Development Authority of India," the notification added.

In the February budget, the Centre announced that the FDI limit for the insurance sector will be raised from 74% to 100% and that the enhanced limit will be only allowed for companies who invest their entire premiums in India.

The government had further noted that current guardrails and conditionalities associated with FDI will be reviewed and simplifiment limits, the proposed Insurance Laws (Amendment) Bill also has provisions for composite licences and allowing foreigners as key managerial personnel (KMP) in Indian insurance firms.

The government is yet to introduce the bill in the parliament.

Last month, finance minister Nirmala Sitharaman had said in Lok Sabha that 100% FDI in insurance will help unlock the full potential of the Indian insurance sector and improve insurance coverage.

With the increase in foreign direct investment limit from 74% to 100% for insurance companies, the government aims to unlock the full potential of the Indian insurance sector, which is projected to grow at 7.1% annually over the next five years, outpacing global and emerging market growth," she said in a written reply in Lok Sabha

# 'Ethanol Blends in Fuel Don't Impact Mileage'

Industry bodies assure of warranties in case of issues in all vehicles on account of E20 usage

#### **Our Bureau**

New Delhi: Higher ethanol blends do not significantly impact vehicle fuel efficiency, representatives of oil marketing companies and automakers said on Saturday to alleviate consumer concerns over mileage.

They also said carmakers will honour all warranties in case of any issues in the vehicle on account of usage of E20 fuel, even in case of older vehicles.

The government had mandated all vehicles manufactured to be E20(blended fuel with 20% ethanol and 80% petrol) material compliant April 2023 onwards, and fully

E20 compliant from April 2025. "There have been no reports of

## REJI MATHAI Director, ARAI



Dear shareholders.

with greater determination.

reflect the trust reposed in our performance and

potential. These recognitions will further

empower the Company with greater autonomy,

enabling it to pursue expansion, diversification.

As per Economic Survey 2024-25, during FY

25, India's services sector has been the

steadiest contributor to the gross value added

(GVA) in the economy and its contribution to the

total GVA at current prices has been about 55

Further, Indian Railways is the fourth largest

network in the world. In view of the rising

passenger traffic, the government is taking

various steps to upgrade passenger amenities,

including focus on improving train catering

services by emphasizing infrastructure

development, and end-to-end accountability for

food production and service; E-Ticketing

through digital means in the unreserved sector,

transformation of refund process allowing

refunds in eligible cases within 24 hours;

introduction of Bharat Gauray trains as theme

based tourist circuit trains that showcase

India's rich cultural heritage and magnificent

During the year, IRCTC has not only

strengthened its core businesses but has also

diversified into new areas of growth, aligning

with the evolving needs of the market. With

a strong emphasis on innovation, digital

transformation, and customer-centric services,

the Company continues to play a pivotal role in

enhancing travel experiences across the

IRCTC to uphold its legacy of trust while

setting new benchmarks in efficiency and

Your Company has consistently demonstrated

financial resilience, with the balance sheet

growing stronger year after year. In FY25,

These initiatives have enabled

historical places.

service excellence.

and innovation with renewed confidence.

**Ethanol** blending is not only technically

viable, but environmentally sustainable as well'

any vehicles breaking down due to usage of E20 fuel. There is no adverse effect on vehicle engines, Prashant K Banerjee, executive director at industry body Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM), said, refuting reports on the potential negative impact of the E20 blended petrol on vehicles. "All OEMs (original equipment

manufacturers) will honour warranties even of older vehicles in case there is an issue," he added.

Vikram Gulati, executive vicepresident at Toyota Kirloskar Motor (TKM), said the concerns on E20 affecting fuel efficiency drastically or adversely impacting vehicle engines "are largely unfounded and not supported by scientific evidence or expert analysis."

Material compatibility and drivability tests by the Automotive Research Association of India. Indian Institute of Petroleum, and Indian Oil Corporation also have confirmed that legacy vehicles showed no significant variations, performance issues, or abnormal wear-and-tear when operated with E20, industry stakeholders said. PS Ravi, advisor at Federation of

Indian Petroleum Industry (FIPI), admitted that ethanol, being lower in energy density than petrol, results in a marginal decrease in mileage, but blending ethanol in petrol helps reduce CO2 emissions, making it sustainable

Referring to the environmental benefits, industry representatives said ethanol is increasingly being produced from not only sugarcane but also from surplus rice, maize, damaged food grains and agricultural residues, especially under the push for second-generation (2G) biofuels.

"This makes ethanol blending not only technically viable, but environmentally sustainable as well," Reji Mathai, director at Automotive Research Association of India (ARAI)

#### THERMAL AND COAL-BASED PROJECTS IN MP

## **Adani Power** to Invest ₹10.5K cr in 800MW Plant

#### **Our Bureau**

Mumbai: Adani Power Ltd, India's largest private sector thermal power generator, Saturday said it has received a letter of award (LoA) from MP Power Management Company Ltd (MPPMCL) for supply of power from a new 800 MW ultra-supercritical thermal power plant to be developed in Anuppur district of Madhya Pradesh

The company will invest ₹10,500  $crore \, towards \, setting \, up \, the \, plant$ and related infrastructure.

Adani Power emerged as one of the lowest bidders in a highly competitive bidding process, with the final tariff of ₹5.838 per KWh, the company said

in a statement. As part of the Company contract, the comemerged as pany will supply one of the power from a new 800 MW ultra-subidders with percritical therfinal tariff mal power unit to be set up under the

lowest

design, build, finance, own and operate (DBFOO) model in the state. The unit will be commissioned within 54 months of the appointed date.

"As India's power demand continues to rise, driven by rapid economic growth, especially the ba se load power, it is imperative to invest in robust energy infrastructure to meet the nation's growing needs," said SBK hyalia, chi ef executive officer, Adani Power He said the Anuppur plant will play a pivotal role in ensuring reliable, affordable and competitively priced power for households and businesses, strengthening India's and Madhya Pradesh's energy security and fuelling continued progress in the state.

The coal linkage for the power plant has been allocated under the Centre's SHAKTI policy.

## Torrent to Set **Up 1,600MW Plant with** ₹22,000 crore

#### **Our Bureau**

Mumbai: Torrent Power on Saturday said it has received a letter of award (LoA) from MP Power Management Company for the supply of power from its planned 1,600 MW coal-based plant.

Torrent Power will invest app roximately ₹22,000 crore in the project, making it the single-largest investment by the Torrent Group in the power sector.

The company said it was awarded the LoA post participation in the competitive bidding process, conducted by MPPMCL, at

a tariff of ₹5.829/kWh. "This investment by Torrent Power will play a sig-

This will be the singleinvestment by the **Torrent Group in** power sector

nificant role in achieving the Go-I's ambitious target of 80 GW of additional coal-based capacity by 2032 to support the country's econo $mic\,growth\,and\,to$ add much-needed

base load capacity to stabilise the grid," said Torrent Power vice chairman and managing director Jinal Mehta.

The company will set up a greenfield 2x800 MW ultra-supercritical power plant in Madhya Pradesh and supply the entire capacity to MPPMCL.

The requisite coal for the power plant will be arranged by MPPMCL under the SHAKTI policy of the ministry of coal. The project is to be commissioned within 72 months from the date of execution of a 25-year power purchase agreement (PPA).

The project is expected to crea te 8,000 to 10,000 direct and indirect jobs during its construction and 1,500 direct and indirect jobs during its operations

#### STUDIO TO CHANGE HANDS FOR ₹650 CRORE

## K Raheja to Acquire, Redevelop SoBo's **Iconic Famous Studios**

### **Kailash Babar**

Mumbai: Famous Studios, the iconic south Mumbai property that has been a hub for India's sing shoots since 1946, is set to change hands through a transaction valued at around ₹650 crore, said persons with direct knowledge of the development.

Realty developer K Raheja Corp is in advanced talks to acquire the 1.5-acre property, located on Dr E Moses Road overlooking Mahalaxmi Racecourse, a landmark address that has hosted generations of Bollywood and advertising professionals. 'The company is set to conclu-

de the deal structured as a joint development pact for the consideration involving a certain part of developed space to be shared with the current owners. Under current planning norms, the plot offers a development potential of around 4 lakh sq ft area," said one of the

persons mentioned above. The final development potential, according to property market experts, will depend on approvals from the civic authority.

This is not the first time the Famous Studios land parcel has been targeted for redevelopment. In 2012, Piramal Realty had entered into a joint venture with the owners of the studio, to build luxury apartments on the land.

That deal, valued at around ₹350 crore, fell through within a year amid disagreements over commercial terms, challenges in converting the BMC leasehold plot from commercial to residential use and complications and around top urban centres



Over the decades, Famous Studios became a go-to venue for production houses and advertising agencies. Its sound stages hosted countless feature films, television serials, ad films and corporate shoots.

gital post-production services and expanding into events and previews. Yet, as demand for physical studio spaces in central Mumbai waned and land values soared, redevelopment became an increasingly attractive proposition for its owners. ET's email query to K Raheja Corp and messages to representatives of Famous Studios remained unanswered.

dia have been witnessing a sharp rise, driven by growing demand for housing, commercial and mixed-use developments. Developers are actively pursuing outright acquisitions. joint development agreements and joint ventures to secure prime land parcels, especially in

# Platform, Software Stack

Bengaluru: Electric two-wheeler maker Ather Energy on Saturday unveiled a new platform, the company's first vehicle architecture since the launch of

its community day event. The new EL platform will be the foundation for a new line of scooters that the Bengalurubased company said will come with improved scalability and cost efficiency. The platform uses a new chassis and powertrain, which allows for faster assembly and servicing, apart from introducing safety upgraform will likely be launched in the market over the next year, cofounder and CEO Tarun Mehta said. "With the EL platform, scalability, better serviceability, lower cost, these are some of the engine-

also some new featu-



res we wanted to build," Mehta told ET on the sideli-

in relocating existing tenants.

ing industry needs, adding di-

ering itches we had wanted to finally get

#### We take pride in our legacy of delivering It is my privilege to welcome you to the 26th sustained value to our shareholders and maintaining financial strength with responsibility Annual General Meeting of your Company. On and trust. Continuing this tradition, the Board behalf of the Board of Directors, I thank you for has recommended a final dividend of ₹1.00 per your continued support and trust, which remain equity share for FY25, subject to approval at the cornerstone of our sustained progress and this AGM. The proposed Final Dividend is in success. I deeply appreciate your presence addition to two interim dividends of ₹4.00 and here today and your constant encouragement, ₹3.00 already distributed, making the total which has always inspired us to move forward dividend declared for FY 25 as ₹8.00 against face value of ₹2.00 per share. The above Fiscal year 2024-25 marks a proud moment for payout is equivalent to nearly 48.67% of profit, all of us, as your Company achieved a which reaffirms our long-standing commitment remarkable double distinction. It was elevated to enhancing shareholder wealth while to the coveted Schedule 'A' CPSE category in exploring innovative ways to provide additional July 2024 and, honoured with the prestigious Navratna status in March 2025 —both of which

**Connecting Horizons** 

Enhancing passengers'

**Experience** 

Allow me to take this opportunity to share with our esteemed shareholders the key segment-wise highlights for the year 2024-25.

#### Catering and Hospitali In Catering, IRCTC strengthened its footprint by enhancing service quality, introducing innovative offerings, and expanding reach

across trains and stations. Your Company managed catering Services for more than 1.250 Trains, including premium Trains, such as Vande Bharat, Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Tejas and Gatiman, in addition to Mail Express and Train Side Vending and served an estimated 16.50 lakh meals per day across various Train Categories. Through the implementation of a cyclic menu format, IRCTC offers a wide variety of fresh & nutritious meal options that not only celebrate India's rich culinary heritage but also cater to the diverse regional tastes of passengers.

The volume of meals served annually by IRCTC demonstrates not only its capability but also its growing reach in meeting the evolving needs of passengers. Further, to promote Digital India and to provide a convenient, transparent, and digitally enabled meal Booking service for passengers, "E-Pantry Service" is currently being piloted. The above facility would be a smart solution for pre-booked food delivery on trains and will be exclusively available for passengers traveling on Mail Express trains.

In addition to the meals provided in trains, the Company is managing around 300 Food Plazas and Fast-Food Units. Your Company's E-catering segment touched all time high of average booking of meals per day at 91,543 meals, with a growth of around 68% from

During FY 25, efforts toward enhancing the 'Food on Track' mobile app were undertaken, which got reflected in its achievement of a 4.8 rating on the Google Play Store. The app was praised for its seamless experience, ser-friendly interface, extensive restaurant

choices, and prompt delivery, even on long routes. These developments collectively strengthened the reliability and outreach of IRCTC's e-Catering services. Your Company is also constantly exploring tie-ups with branded players to enhance the experience of E-catering

for rail passengers. Going forward, your Company will maintain its focus on technology integration and digitalization, continuous enhancement of menu offerings and food quality, expansion of mobile catering units, and sustainability initiatives through the adoption of eco-friendly packaging solutions.

As part of its expansion strategy, IRCTC is in the process of finalizing an MoU with RLDA for the development of budget hotels. This initiative aims to cater to the growing demand for affordable and quality accommodation for passengers and tourists

In the Internet Ticketing segment, IRCTC consolidated its leadership position with robust digital initiatives, ensuring seamless and user-friendly booking experiences for millions of passengers.

The Company achieved the milestone of 30.155 bookings in a single minute on 12th March, 2025 and the ticketing platform set a one-day booking record with 16.17.404 tickets on 6th

To enhance booking efficiency and safeguard platform integrity, IRCTC has deployed advanced CDN infrastructure and anti-bot technologies. These strategic interventions are designed to curb malicious automated traffic and ensure optimal system availability for genuine users, thereby reinforcing service reliability and user trust. Looking forward, your Company is committed to fortifying the NGeT Disaster Recovery Site, aligning this initiative with its broader vision of future readiness, technological resilience, and uninterrupted customer experience.

79.23 % during the year.

demand for safe packaged drinking water

but also reinforces IRCTC's commitment

At IRCTC, we believe that strong corporate

governance, transparency, and accountability

are the pillars of sustainable growth and

stakeholders' trust. Our governance framework

is complemented by a deep commitment

to Corporate Social Responsibility and

sustainability, ensuring that our progress

creates a positive impact on society and

the environment. By integrating ethics,

compliance, and responsibility into every

aspect of our business, we continue to

reinforce IRCTC's reputation as a trusted

organization, while creating long-term value for

our shareholders and contributing meaningfully

am pleased to share that, for the fifth

consecutive year, your Company has received 'NIL' comments from the Comptroller and

Auditor General of India on its Financial

Statements for FY 2024-25. This stands as a

testament to IRCTC's commitment to maintain-

ing the highest standards of transparency and

financial integrity. Further, your Company

continues to comply with the requirements

of Corporate Governance as laid down under SEBI Regulations and the DPE

Guidelines, reflecting our unwavering focus on

I wish to place on record my sincere gratitude to

the Government of India, various ministries,

especially Ministry of Railways, Ministry of

Tourism, regulators, DIPAM, DPE, State

Governments, our valued customers, auditors,

vendors, and all supporting agencies for their

steadfast support. I also thank my fellow Board

members for their guidance and contributions in

Above all, I remain deeply grateful to our

shareholders, investors, employees, and

strengthening the Company

accountability and stakeholder trust.

sustainability, customer

nationwide accessibility.

to nation-building.

## CHAIRMAN'S SPEECH



and expansion of flight ticket booking to boost regional connectivity. Travel & Tourism In Tourism, the Company leveraged its expertise to curate affordable as well as premium travel packages, thereby promoting

I am happy to share that RBI granted

in-principle approval for Payment Aggregator

services to IRCTC Payments Limited recently, a

wholly owned subsidiary of IRCTC. The

subsidiary is strategically positioned to expand

beyond its initial focus on IRCTC's own ticketing

portals. Building on the in-principle authoriza-

tion, the Company is progressing with the

requisite procedures and documentation to

Other promising projects under the segment

include, launch of IRCTC Unified Portal as one

stop solution for all travel needs, online booking

for Ferry Ticketing, Ship ticketing, treks booking

secure the final approval from RBI.

domestic tourism and contributing to the growth of the sector. During FY 2024-25, IRCTC operated 196 Bharat Gaurav Trains, the highest ever in any financial year. In the air tourism segment, the Company successfully conducted 629 Domestic Air Packages and 152 International Air Packages. The Golden Chariot Luxury Train also resumed operations post-Covid, with 3

successful trips during the year. As part of the Mahakumbh 2025, IRCTC forayed into the business of tent accommodations through the 'IRCTC Mahakumbh Gram Tent City' at Prayagraj. This initiative was met with an overwhelming response, instilling confidence to explore similar ventures in the future. In addition, IRCTC had the privilege of operating the Pravasi Bharativa Train for lelegates from 27 countries, on behalf of the Ministry of External Affairs, which was flagged off by the Hon'ble Prime Minister on Pravasi Bharatiya Diwas

Looking ahead, the Company's tourism plans include the launch of a Unified Portal and the introduction of new rakes for the prestigious Maharajas' Express and Bharat Gaurav Trains.

#### Rail Neer, the flagship packaged drinking water brand of IRCTC, has continued to play a pivotal role in ensuring access to safe, hygienic and affordable drinking water for millions of rail passengers across India. With 20 operational plants and an installed capacity of 18.40 lakh litres per day, Rail Neer maintains a robust presence at over 400 railway stations. The average capacity utilisation was all time high of

The Company envisions strengthening its long-term growth trajectory by expanding the Rail Neer network through capacity augmentation and establishment of new plants. This strategic initiative not only addresses the rising

#### customers for their trust and confidence. Your continued support inspires us to perform better each year. We reaffirm our unwavering commitment to delivering consistent returns, strengthening and enhancing long-term governance, shareholder value Thank You

Jai Hind

Sh. Sanjay Kumar Jain **Chairman and Managing Director** DIN: 09629741 Place : New Delhi

Date: 30.08.2025



**Indian Railway Catering & Tourism Corporation Limited** Govt. of India Enterprise - A Navratna CPSE CIN NO - L74899DL1999G0I101707

# 

Ather 450, at the third edition of

des such as an advanced bra-

The facility adapted to chang-

Land transactions across In-

# **Ather Energy Unveils New**

### **Our Bureau**



a crack at. There are

nes of the event. "Some of those things had become platform-restricted, and the current platform was just not making it possible for us to build beyond a certain point. So, some new mechanical chang-









**BRIEFLY** 

## 'Calling Rahul, Tejashwi 'Jannayak' an insult to Karpoori Thakur':

**Patna:** Janata Dal (United) spokesperson Neeraj Kumar on Saturday launched a sharp attack on Samajwadi Party (SP) chief Akhilesh Yadav for calling Congress MP and Leader of the Opposition (LoP) in the Lok Sabha Rahul Gandhi and RJD's Tejashwi Yadav "Jannayak" during the 'Voter Adhikar Yatra' in Bihar, saying the comparison insults the legacy of Bharat Ratna awardee Karpoori Thakur. The controversy erupted after Akhilesh Yadav joined the Congress-led 'Voter Rights Yatra' in Saran district, a campaign under the INDIA Bloc banner. Congress General Secretary K.C. Venugopal had earlier called Akhilesh a "steadfast ally" in the Opposition's fight to "save democracy" from the BJP. Neeraj Kumar questioned the socialist credentials of Akhilesh and his endorsement of LoP Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav as "Jannayaks." "Akhilesh Yadav is the son of Mulayam Singh Yadav and claims to follow the socialist path. He must clarify whether he truly believes Rahul Gandhi and Tejashwi Yadav embody the spirit of 'Jannayak'," Neeraj told IANS."

## **Jarange-Patil accuses CM** Fadnavis of playing politics, urges supporters to maintain peace:

**Mumbai:** Pro-Maratha quota activist Manoj Jarange-Patil on Saturday accused Chief Minister Devendra Fadnavis of indulging in politics, alleging that he wanted the police to resort to lathi charge on protesters gathered in and around Azad Maidan. Jarange-Patil, who has launched an indefinite fast demanding reservation to the Maratha community from the OBC quota, which will pass the test of law, said, "Don't hold the Marathas captive, you (CM Fadnavis and state government) have an opportunity in your hands. Seize the opportunity. If you lash out at the protesters, it will also create problems for Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah." His statement comes on the second day of his protest as the police have extended permission till Saturday, though he has reiterated that he won't leave Mumbai until the government implements reservation for Maratha.

# PM Narendra Modi invites Japanese prefectures to co-pilot India's progress

STATESMAN NEWS SERVICE New Delhi, 30 August

Minister Narendra Modi Saturday emphasized the importance of strengthening State-Prefecture engagement between India and Japan.

Addressing the Governors of various Prefectures of Japan, PM Modi highlighted the growing momentum in the India-Japan Special Strategic and Global Partnership across various domains.

PM Modi today met with 16 Governors of various Prefectures of Japan, emphasizing the importance of strengthening State-Prefecture engagement between the two countries. The meeting highlighted the growing momentum in the India-Japan Special Strategic and Global Partnership across various domains.

He invited the Governors to co-pilot India's progress, leveraging the strengths of both Indian states and Japanese Prefectures. "Let India's states and Japan's prefectures co-pilot our shared progress," he said.

Asserting that Japanese Prefectures are fertile ground for SMEs and start-ups, and Indian states can benefit from similar ecosystems, the Prime Minister said: "Ideas will flow, innovation will grow, and opportunities will unfold."



Prime Minister Narendra Modi walks along with Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba during the 15th India-Japan Annual Summit meeting in Tokyo, Japan. IANS

He welcomed the launch of the Business Exchange Forum in Kansai, which will facilitate direct dialogue between companies, promote new investments, and foster partnerships between start-ups.

Emphasisingtheimportance of youth exchange, he announced an Action Plan to promote the exchange of 500,000 people in various fields over the next five years, including 50,000 Indian skilled professionals to Japan.

Governors to play a key role in promoting people-to-people exchanges and economic cooperation between the two countries. "When young minds connect, great nations rise

together," he said, highlighting the importance of educational exchanges. The Prime Minister invited the Governors to participate in India's growth story, leveraging their strengths in areas such as creating new industries and developing new skills, fostering innovation and entrepreneurship, and providing opportunities for skilled professionals.

"Let Tokyo and Delhi take the lead. But, Let Kanagawa and Karnataka, give voice. PM Modi encouraged the Let Aichi and Assam, dream together. Let Okayama and Odisha, build the future," PM Modi said, emphasizing the potential for collaboration between Indian states and Japanese Prefectures.

# **PMModiexplores** semiconductor sectorinJapan

STATESMAN NEW SERVICE New Delhi, 30 August

Prime Minister Narendra Modi Saturday stepped up his initiative to explore the semiconductor system in Japan. PM Modi who is currently in Tokyo to attend the 15th India-Japan Annual Summit at the invitation of Japanese Prime Minister Ishiba, today visited Tokyo's Electron Miyagi Ltd (TEL Miyagi), a leading Japanese company in the semiconductor sector.

During his visit to the Electron Factory, PM Modi underscored the growing partnership between India and Japan in building resilient supply chains and economic security. PM Modi, who was accompanied by Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba, also explored potential collaborations and innovations in the semiconductor industry.

During his visit, PM Modi enhance economic security. was briefed on TEL's role in the global semiconductor value chain, its advanced manufacturing capabilities, and ongoing and planned collaborations with India. This

visit highlights the importance of strengthening economic ties between the two nations, particularly in the technology sector. The visit to TEL Miyagi is a significant step in solidifying India-Japan economic cooperation. Earlier, PM Modi emphasized the importance of "Trust, Transparency, and Timeliness" in building resilient supply chains during the launch of the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF) in Tokyo. This framework aims to enhance economic resilience, sustainability,

Indo-Pacific region. The semiconductor industry is a crucial component of modern technology, and India is keen on developing its capabilities in this sector. The collaboration between India and Japan in this field is expected to drive innovation, create new opportunities, and

and inclusiveness in the

By fostering partnerships with leading companies like TEL Miyagi, India aims to strengthen its position in the global semiconductor value chain.

am happy to share that RBI granted

in-principle approval for Payment Aggregator

services to IRCTC Payments Limited recently, a

wholly owned subsidiary of IRCTC. The

subsidiary is strategically positioned to expand

beyond its initial focus on IRCTC's own ticketing

portals. Building on the in-principle authoriza-

tion, the Company is progressing with the

requisite procedures and documentation to

Other promising projects under the segment

include, launch of IRCTC Unified Portal as one

stop solution for all travel needs, online booking

for Ferry Ticketing, Ship ticketing, treks booking

and expansion of flight ticket booking to boost

Tourism, the Company leveraged its

expertise to curate affordable as well as

premium travel packages, thereby promoting

domestic tourism and contributing to the growth

During FY 2024-25, IRCTC operated 196

Bharat Gauray Trains, the highest ever in any

financial year. In the air tourism segment, the

Company successfully conducted 629

Domestic Air Packages and 152 International

Air Packages. The Golden Chariot Luxury Train

also resumed operations post-Covid, with 3

As part of the Mahakumbh 2025, IRCTC

forayed into the business of tent accommoda-

tions through the 'IRCTC Mahakumbh Gram

Tent City at Prayagraj. This initiative was met

with an overwhelming response, instilling

confidence to explore similar ventures in the

future. In addition, IRCTC had the privilege of

operating the Pravasi Bharatiya Train for

delegates from 27 countries, on behalf of the

Ministry of External Affairs, which was flagged

off by the Hon'ble Prime Minister on Pravasi

Looking ahead, the Company's tourism plans

include the launch of a Unified Portal and the

introduction of new rakes for the prestigious

Maharajas' Express and Bharat Gaurav Trains.

Rail Neer, the flagship packaged drinking water

brand of IRCTC, has continued to play a pivotal

successful trips during the year.

Bharatiya Diwas.

secure the final approval from RBI.

regional connectivity.

Travel & Tourism

PM Modi's thoughtful gifts for Ishiba, spouse

**STATESMAN NEWS SERVICE** New Delhi, 30 August

Prime Minister Narendra Modi has gifted a unique set of Ramen Bowls with Chopsticks to Japanese counterpart Shigeru Ishiba, showcasing a blend of Indian artistry and Japanese culinary tradition.

The Vintage Precious Stone Bowls set features a large brown moonstone bowl with four smaller ones and silver chopsticks, symbolizing love, balance, and protection.

To the spouse of the Japanese Prime Minister, PM Modi gifted an exquisite Pashmina shawl in a papier-mâché box. The shawl, handwoven by Kashmiri artisans, carries a centuries-old tradition and is valued for its lightness, softness, and warmth. The shawl's ivory base features delicate floral and paisley patterns, showcasing classic Kashmiri design and craftsmanship.

PM Modi was in Tokyo on a two-day visit to attend the 15th India-Japan Annual Summit at the invitation of Japanese Prime Minister

## 'Govt working to find solution to Maratha quota demand'

**AGENCIES** Jagdalpur, 30 August

Deputy Chief Minister and NCP President Ajit Pawar on Saturday said that the Mahayuti government is positive about the demand for Maratha reservation made by activist Manoj Jarange-Patil and is working to find a solution to it.

"A Cabinet subcommittee has been formed under the leadership of state Cabinet Minister Radhakrishna Vikhe-Patil and the committee is discussing the issue. Everyone has the right to protest and agitate. But this agitation should be peaceful. The Mahayuti government is trying to find a solution. We believe that a solution will definitely be found," said Dy CM Ajit Pawar.

Debts Recovery Tribunal-I, Delhi New Delhi-110001 OA. 186/2024

PUNJAB NATIONAL BANK Applican Defendants

(1) NAVEEN KUMAR S/O SHRI ATTAR SINGH PROPRITER OF M/S SOMYA DIGITAL TECHNOLOGIES R/O GF, F 35/22 RAJENDER PART EXT. NEAR BHARAT GAS AGENCY NANGLOI WEST DELHI 110041 Also At. VILLAGE BAMLA-I BHIWANI HARYANA 127021 Also At SHAKUNTLA APARTMENT MUNDKA RAN KHERA ROAD SHIVALA MANDIR MUNDKA RAILWAY UNDER BRIDGE WEST CABIN BLOCK MUNDKA DELHI 110041

Whereas the above-named applicant has instituted a case for recovery of Rs. 52 36 342 45 (Runner ONE CRORE FIFTY-TWO LAKHS THIRTY THOUSAND THREE HUNDRED FORTY-TWO AND FORTY-FIVE PAISA ONLY) against you and whereas it has been shown to the satisfaction of the Tribunal that it is not possible to serve you in ordinary way. Therefore, this notice is given by advertisement directing you to make appearance before Hon'ble PO or 23.09.2025 at 10:30 A.M. (for further details kindly visit DRT website www.tribunal.gov.in Phone Number: 011-23748473).

Take notice that in case of your failure to appear on the above-mentioned day before this Tribunal, the case will be heard and decided in

All the matters will be taken up through Video Conferencing and for that purpose:-All the Advocates / Litigartis shall download the "Cisco Webex" application / Software;

(ii) "Meeting ID" and "Password" for the next date of hearing qua cases to be taken by 'Registrar/Recovery Officer-I/ and Recovery Officer-II shall be available one day prior to the next date at DRT Official Portal i.e. "https://drt.gov.in" under the Public Notice

(iii) In any exigency qua that, the Advocates : Litigants can contact the concerned official at Ph. No. 011-23748473. Given under my hand and seal of the Tribuna

on this 9th June, 2025. By order of this Tribunal (Oncer V, Ruse 20 of the Code of Civil Procedure) in the Court Of Sh. Vidya Prakash, District Judge (Commercial Court-62), Room No. 25, PHC, NDD, Case No. CS(Comm.) 53/2024 Deutsche Bank AG ....Applicant Versus Mis RAA Security Private Limited & Ors

To Mis RAA Security Private Limited, Through its Director, At - C-17, G-2, Citizen Paramount Tower, Janak Cinema, New Dehi - 110058, E-Tower, Janak Cinema, New Dehi - 110058, E-mail D - caslokpoddam@gmail.com Also at - Mis RAA Security Private Limited, through its Director, At - G-13 & 14. Second Floor, Khasra No. 25/11/1. Gail No. 2, Debri Extn., New Dehi - 110045, 2 Ms. Mamta Devi, Director, At - C-17, G-2, Critzen Paramount Tower, Janak Cinema, New Dehi - 110058, Also at - Ms. Mamta Devi, Director, At - G-13 & 14. Second Floor, Khasra No. 25/11/1. Gail No. 2, Debri Extn., New Dehi - 110045, Also at - Ms. Mamta Devi, RZ - G-18/A, Khasra No. 15/11, First Floor, Street No. 5, Village Dabri, Sindicate Enclave, Raghu Nagar, Delhi - 110045, 3, Ms. Phys Rathor, Director, At - G-17, G-2, Citizen Paramount Tower, Janak Cinema, New Dehi - 110058, Also at Ms. Phys Rathor, Director, At - G-13 & 14, Second Floor, Khasra No. 25/11/1, Gail ) & 14. Second Floor, Khasra No. 25/11/1, Gal o. 2, Dabri Extn., New Delhi - 110045, Also a s. Priya Rathor, RZ -C-18/A, Khasra No. 15/11.

must be Sed within thirty days fro the date of receipt of the summons. You are to fi theplaintiff with written statement. It is made clear that any unjustified denial documents and delay before mentioned, the suit will be heard an determined in your absence. Given under my hand and the seal of the court, this 22th August, 2025 District Judge (Commercial Court) Patiala House, Courts

IN THE COURT OF SH. ASHUTOSH KUMAR, LD. DISTRICT JUDGE (COMMERCIAL COURT-01), WEST DISTRICT, DELHI, ROOM No. 201, EXTENSION BLOCK (NEW). SECOND FLOOR, TIS HAZARI COURT, DELHI

SUMMON FOR PUBLICATION PROCLAMATION REQUIRING ATTENDANCE OF DEFENDANT (Order 5, Rule 20 of the Code of Civil Procedure)

CS (COMM) NO. 113/2025 CICI BANK LTD. ...PLAINTIFF SOHAN LAL (PROPRIETOR OF INZIN INDIA CO.)

SOHAN LAL PROPRIETOR OF INZIN INDIA CO.) S/O MR. KRISHAN LAL R/O 709 SAINI DHARMSALA SANI VIHAR, MUNDKA, MUNDKA WEST, NEW DELHI-110041,

SOHAN LAL (PROPRIETOR OF INZIN INDIA CO.) S/O MR. KRISHAN LAL, R/O HOUSE NO 727, POLE NO. K 037, VILLAGE MUNDKA OLD, LAL DORA, NEAR DURGA MANDIR, NEW DELHI-110041

Whereas you the person named above, could not be served in the above-mentioned civil suit pending in this Court preferred by the plaintiff named above, by ordinary modes of services as provided in Order 5 of CPC. Accordingly, by way of the present publication you are hereby informed that the above-mentioned suit is listed in the Court named above on 22.09.2025 at 10:00 AM. You are required to appear in the said suit personally or through a pleader

duly authorized. Please note that in case you do not appear in the above-mentioned suit listed on the next date of hearing before the Court, the matter shall be proceeded against you as ex-parte and Court would proceed for final disposal of the case against you. Given under my hand and the seal

of the court on this 12.08.2025. District Judge (Commercial) Court No. 201, Extension Block West Delhi



It is my privilege to welcome you to the 26th Annual General Meeting of your Company. On behalf of the Board of Directors, I thank you for your continued support and trust, which remain the comerstone of our sustained progress and success. I deeply appreciate your presence here today and your constant encouragement, which has always inspired us to move forward

Fiscal year 2024-25 marks a proud moment for all of us, as your Company achieved a remarkable double distinction. It was elevated to the coveted Schedule 'A' CPSE category in July 2024 and, honoured with the prestigious Navratna status in March 2025 —both of which reflect the trust reposed in our performance and potential. These recognitions will further empower the Company with greater autonomy, enabling it to pursue expansion, diversification, and innovation with renewed confidence.

As per Economic Survey 2024-25, during FY 25, India's services sector has been the steadiest contributor to the gross value added (GVA) in the economy and its contribution to the total GVA at current prices has been about 55 per cent in FY25.

Further, Indian Railways is the fourth largest network in the world. In view of the rising passenger traffic, the government is taking various steps to upgrade passenger amenities, including focus on improving train catering services by emphasizing infrastructure development, and end-to-end accountability for food production and service; E-Ticketing through digital means in the unreserved sector, transformation of refund process allowing refunds in eligible cases within 24 hours; introduction of Bharat Gaurav trains as theme India's rich cultural heritage and magnificent historical places.

During the year, IRCTC has not only strengthened its core businesses but has also diversified into new areas of growth, aligning with the evolving needs of the market. With a strong emphasis on innovation, digital transformation, and customer-centric services, the Company continues to play a pivotal role in enhancing travel experiences across the nation. These initiatives have enabled IRCTC to uphold its legacy of trust while setting new benchmarks in efficiency and service excellence.

## Financial Performance

Your Company has consistently demonstrated financial resilience, with the balance sheet growing stronger year after year. In FY25, Consolidated Revenue reached ₹4,675 crore and Profit After Tax touched ₹1,315 crore, marking a robust growth of nearly 9.74% for Revenue and 18.36% for PAT over FY24.



We take pride in our legacy of delivering sustained value to our shareholders and maintaining financial strength with responsibility and trust. Continuing this tradition, the Board has recommended a final dividend of ₹1.00 per equity share for FY25, subject to approval at this AGM. The proposed Final Dividend is in addition to two interim dividends of ₹4.00 and ₹3.00 already distributed, making the total dividend declared for FY 25 as ₹8.00 against face value of ₹2.00 per share. The above payout is equivalent to nearly 48.67% of profit, which reaffirms our long-standing commitment to enhancing shareholder wealth while exploring innovative ways to provide additional

Allow me to take this opportunity to share with our esteemed shareholders the key segment-wise highlights for the year 2024-25.

Catering and Hospitality In Catering, IRCTC strengthened its footprint by enhancing service quality, introducing innovative offerings, and expanding reach across trains and stations.

Your Company managed catering Services for more than 1,250 Trains, including premium Trains, such as Vande Bharat, Rajdhani, Shatabdi, Duronto, Tejas and Gatiman, in addition to Mail Express and Train Side Vending and served an estimated 16.50 lakh meals per day across various Train Categories. Through the implementation of a cyclic menu format, IRCTC offers a wide variety of fresh & nutritious meal options that not only celebrate India's rich culinary heritage but also cater to the diverse regional tastes of passengers.

The volume of meals served annually by IRCTC demonstrates not only its capability evolving needs of passengers. Further, to promote Digital India and to provide a convenient, transparent, and digitally enabled meal Booking service for passengers, "E-Pantry Service" is currently being piloted. The above facility would be a smart solution for pre-booked food delivery on trains and will be exclusively available for passengers traveling on Mail Express trains.

In addition to the meals provided in trains, the Company is managing around 300 Food Plazas and Fast-Food Units. Your Company's E-catering segment touched all time high of average booking of meals per day at 91,543 meals, with a growth of around 68% from

During FY 25, efforts toward enhancing the 'Food on Track' mobile app were undertaken, which got reflected in its achievement of a 4.8 rating on the Google Play Store. The app was praised for its seamless experience, user-friendly interface, extensive restaurant



choices, and prompt delivery, even on long routes. These developments collectively strengthened the reliability and outreach of IRCTC's e-Catering services. Your Company is also constantly exploring tie-ups with branded players to enhance the experience of E-catering

Going forward, your Company will maintain its focus on technology integration and digitalization, continuous enhancement of menu offerings and food quality, expansion of mobile catering units, and sustainability initiatives through the adoption of eco-friendly


As part of its expansion strategy, IRCTC is in the process of finalizing an MoU with RLDA for the development of budget hotels. This initiative aims to cater to the growing demand for affordable and quality accommodation for passengers and tourists


## Internet Ticketing

in the internet licketing segment, IRC1C consolidated its leadership position with robust digital initiatives, ensuring seamless and user-friendly booking experiences for millions of passengers.

The Company achieved the milestone of 30,155 bookings in a single minute on 12th March, 2025 and the ticketing platform set a one-day booking record with 16,17,404 tickets on 6th

To enhance booking efficiency and safeguard platform integrity, IRCTC has deployed advanced CDN infrastructure and anti-bot technologies. These strategic interventions are designed to curb malicious automated traffic and ensure optimal system availability for genuine users, thereby reinforcing service reliability and user trust. Looking forward, your Company is committed to fortifying the NGeT Disaster Recovery Site, aligning this initiative with its broader vision of future readiness, technological resilience, and uninterrupted customer experience.





The Company envisions strengthening its long-term growth trajectory by expanding the Rail Neer network through capacity augmentation and establishment of new plants. This strategic initiative not only addresses the rising

demand for safe packaged drinking water but also reinforces IRCTC's commitment to sustainability, customer trust, and

#### nationwide accessibility Transparency and Disclosures

At IRCTC, we believe that strong corporate governance, transparency, and accountability are the pillars of sustainable growth and stakeholders' trust. Our governance framework is complemented by a deep commitment to Corporate Social Responsibility and sustainability, ensuring that our progress creates a positive impact on society and the environment. By integrating ethics, compliance, and responsibility into every aspect of our business, we continue to reinforce IRCTC's reputation as a trusted organization, while creating long-term value for our shareholders and contributing meaningfully

I am pleased to share that, for the fifth consecutive year, your Company has received 'NIL' comments from the Comptroller and Auditor General of India on its Financial Statements for FY 2024-25. This stands as a ing the highest standards of transparency and financial integrity. Further, your Company continues to comply with the requirements of Corporate Governance as laid down under SEBI Regulations and the DPE Guidelines, reflecting our unwavering focus on accountability and stakeholder trust.

I wish to place on record my sincere gratitude to the Government of India, various ministries, especially Ministry of Railways, Ministry of Tourism, regulators, DIPAM, DPE, State Governments, our valued customers, auditors, endors, and all supporting agencies for their steadfast support. I also thank my fellow Board members for their guidance and contributions in strengthening the Company.

Above all, I remain deeply grateful to our shareholders, investors, employees, and customers for their trust and confidence. Your continued support inspires us to perform better

We reaffirm our unwavering commitment to delivering consistent returns, strengthening governance, and enhancing long-term shareholder value.

Thank You

Sh. Sanjay Kumar Jain Chairman and Managing Director DIN: 09629741

Place: New Delhi Date: 30.08.2025



Indian Railway Catering & **Tourism Corporation Limited** A Govt. of India Enterprise - A Navratna CPSE CIN NO - L74899DL1999G0I101707











# गुरुवार को था बेटे का बर्थडे, आरोपी को सास का दिया गिफ्ट नहीं आया था पसंद

# गिफ्ट को लेकर पत्नी और सास की कर दी हत्या

और सास की कैंची से गोदंकर हत्या कर दी। शनिवार दोपहर डबल मर्डर का खुलासा हुआ जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या के आरोपी को पुलिस ने कछ ही समय में गिरफ्तार कर लिया। पछताछ में पलिस को डबल मर्डर की जो उन्होंने पलिस को बताया कि दो दिन

वजह पता चली, उसे सुनकर हर कोई हैरान है। पुलिस को पता चला कि युवक की सास उसके बेटे के बर्थ डे पर अच्छा गिफ्ट लेकर नहीं आई थी। जिसकी वजह से युवक का पत्नी से वाद विवाद हो गया। इसी विवाद में उसने गुस्से में योगेश सहगल उसके पति योगेश के बीच आकर डबल मर्डर को अंजाम दे दिया।

पलिस अफसर के मताबिक शनिवार दोपहर करीब 3.50 बजे केएन काटजू पुलिस थाने को एक कॉल मिली। कॉलर ने बताया कि यहां डबल मर्डर कर दिया ही चला गया। आरोप है कि प्रिया अपनी गया है। सूचना मिलने पर पुलिस टीम तरंत क्राइम सीन रोहिणी सेक्टर 17, ए ब्लॉक, थर्ड फ्लोर पहुंची। जहां एक कमरे में खून से लथपथ दो महिलाओं के शव के लिए कुसुम सिन्हा अपनी बेटी प्रिया पड़े मिले। स्थानीय लोगों से जानकारी के घर पर ही रुकी रहीं।

वर्षीय कुसुम सिन्हा और उनकी बेटी 34 रोहिणी इलाके में एक युवक ने पत्नी वर्षीय प्रिया सहगल के तौर पर हुई। दोनों रोहिणी सेक्टर 17 के ए ब्लॉक स्थित जनता फ्लैट्स में रहते थे।

> कॉल करने वाला कुसुम सिन्हा का बेटा 30 वर्षीय मेघ सिन्हा था जो कि रोहिणी सेक्टर 24, पॉकेट 2 में रहते हैं।

पहले 28 अगस्त को उसकी मां कुसुम सिन्हा अपनी बेटी प्रिया के घर गई थीं। वह प्रिया के बेटे का जन्मदिन मनाने गई थीं। समारोह के दौरान परिवार के दोनों पक्षों के बीच गिफ्ट के लेन देन को लेकर प्रिया और

विवाद हो गया। पुलिस का कहना है कि कुसुम सिन्हा ने कहा था कि वह और अच्छा गिफ्ट बच्चे को दिला देंगी। लेकिन पति पत्नी में इसको लेकर टकराव बढ़ता मां और मायके का फेवर ले रही थी और बेरोजगार पति पर कमेंट कर दिया था। पति पत्नी के बीच विवाद को सुलझाने

## सास ने बाद में दूसरा गिफ्ट देने का दिया था भरोसा, फिर भी कर दी हत्या

पुलिस का कहना है कि सास ने कहा था कि वह और अच्छा गिफ्ट दिला देंगी

 विवाद को सुलझाने के लिए सास अपनी बेटी प्रिया के घर पर ही रुकी रहीं

इसी विवाद में उसने गुस्से में आकर कैंची से गोदकर डबल मर्डर कर दिया



खुन से सने कपड़े, एक कैंची बरामद वहीं, क्राइम सीन पर पुलिस ने खून से सने कपड़े और एक कैंची बरामद की है। मामले में पूछताछ और छानबीन में पता चला कि

हत्या का कारण घरेलू कलह और बार-बार होने वाले झगड़े हैं। डबल मर्डर को अंजाम देने वाले आरोपी योगेश सहगल को पुलिस ने कुछ ही समय में गिरफ्तार

## हत्या के बाद बच्चों को लेकर फरार हो गया था आरोपी

इस वारदात का खुलासा उस समय हुआ जब कुसुम सिन्हा के बेटे मेघ सिन्हा ने अपनी मां से बात करने के लिए मोबाइल पर कॉल किया। लेकिन लगातार रिंग जाने के बाद भी उनसे संपर्क नहीं हो सका। फिर वह प्रिया के घर आया। देखा कि फ्लैट बाहर से बंद था। दरवाजे के पास खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। उसने तुरंत परिवार के बाकी लोगों को सूचित किया। इसके

बाद ताला तोडा। अंदर कमरे में उसने अपनी मां और बहन को खुन से लथपथ पाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उसका जीजा योगेश सहगल (प्रिया का पति, जो हाल फिलहाल बेरोजगार है) ने मां और बहन दोनों की हत्या कर दी। दावा किया कि वह हत्या के बाद बच्चे को लेकर भाग गया। केएन काटजू पुलिस ने कुछ ही देर में आरोपी योगेश सहगल को गिरफ्तार कर लिया।

#### 'बेटे, मैंने तुम्हारी मम्मी नानी को मार दिया हैं'

पुलिस सूत्रों के मुताबिक, दंपति के दो बेटे हैं। दोनों के नाम चिराग और पुष्कर है। 28 अगस्त को चिराग का जन्मदिन था। तभी गिफ्ट को लेकर विवाद हुआ था। आरोपी ने शनिवार दोपहर लगभग साढ़े बारह बजे दोनों की हत्या कर दी थी। उस समय दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। आरोपी ने हत्या के बाद दोनों बच्चों का इंतजार किया। जैसे ही स्कूल से दोनों बच्चे आए। उन्हें घर में अंदर नहीं जाने दिया। बल्कि बच्चों को यह बता दिया था कि मैंने तुम्हारी मम्मी और नानी को मार दिया है, फिर भी तुम चिंता मत करना, तुम्हारा कुछ न कुछ इंतजाम करुंगा, क्योंकि मुझे तो पुलिस पकड़ ले जाएगी। इसके बाद आरोपी अपने दोनों बच्चों को लेकर वहीं घूम रहा था। तभी इसे पकड़ लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी योगेश सहगल पहले इलाके में ही एक जूलर के यहां कारीगर था। लेकिन वहां से जॉब छूट जाने के बाद आरोपी का अपनी पत्नीं से घर के खर्च को लेकर टकराव चलता रहता था।

# मेवाती गैंग का सरगना पप्पी मुठभेड़ में गिरफ्तार

STF ने शुक्रवार रात को तुगलकाबाद से पकड़ा

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

साउथ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट की एसटीएफ ने गाडी चोरी, एटीएम चोरी और डकैती के लिए कुख्यात मेवाती गैंग के सरगना पप्पी उर्फ पप्पू को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है। एनकाउंटर में पप्पी के दाहिने पैर में गोली लगी है। दिल्ली के अलावा हरियाणा, राजस्थान और केरल पलिस उसकी तलाश में थीं। डीसीपी डॉ. हेमंत तिवारी ने बताया कि पकड़ा गया पप्पी उर्फ पप्पू राजस्थान के डीग का रहने वाला है। उसके खिलाफ विभिन्न राज्यों में 65 केस दर्ज हैं। फरवरी में पप्पी के

एनकाउंटर साथी साहिल को गाड़ी चोरी में पप्पी के के आरोप में गिरफ्तार किया दाहिने पैर गया था। उसने खुलासा किया था कि पप्पी के साथ में गोली मिलकर वह गाड़ियां चोरी लगी है कर मेवात इलाके में ठिकाने लगाते थे।

डीसीपी के अनुसार, शुक्रवार को पलिस को सचना मिली कि मेवाती गैंग सरगना अपने किसी साथी से मिलने इस आधार पर एसटीएफ के इंस्पेक्टर अस्पताल भिजवाया गया।



शिव कुमार की देखरेख में एसआई कुलदीप सिंह, राजेश शर्मा, सिकंदर व कांस्टेबल वीरेंद्र आदि की टीम ने इलाके

> की घेराबंदी की। बाइक सवार पप्पी को रोकने का प्रयास किया गया तो उसने पलिस टीम पर फायरिंग शरू कर दी। आरोपी द्वारा चलाई गई एक गोली कॉन्स्टेबल वीरेंद्र को लगी, लेकिन बुलेट

प्रफ जैकेट पहने होने से उनकी जान बच गई। पप्पी ने पुलिस टीम पर दो राउंड फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की चलाई गोली दाहिने पैर तुगलकाबाद इलाके में आने वाला है। में लगने से पप्पी घायल हो गया। उसे

## बैंक से लौट रही बुजुर्ग से झपटमारी

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली: बैंक से पति के साथ ई रिक्शा से लौट रही एक बुजुर्ग महिला से बाइक सवार दो बदमाश पर्स छीनकर फरार हो गए। पर्स में महिला

महिला के पर्स में आईफोन और कैश था

आईफोन और कैश था। महिला बुजुर्ग की शिकायत पर पांडव नगर

पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अभी तक आरोपियों का पता नहीं चल सका है।

पुलिस अधिकारी ने बताया कि 65 वर्षीय डॉक्टर विनोद चंद्रा अपनी पत्नी अल्का के साथ 26 अगस्त को ई रिक्शा से बैंक से घर लौट रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाश उनकी पत्नी के हाथ से पर्स छीनकर एनएच-

## हाई कोर्ट ने कहा, रेप से कलंक पीड़िता पर नहीं बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने एक आरोपी की दलील को 'घणित' करार दिया है, जिसमें उसके कहा कि उसके खिलाफ रेप की कार्यवाही रद्द करना नाबालिग पीड़िता के हित में होगा, वरना पीड़िता को 'कलंक' का सामना करना पड़ेगा। हाई कोर्ट ने कहा कि कलंक पीड़िता पर नहीं, बल्कि अपराधी पर लगना चाहिए। इसी के साथ कोर्ट ने उस व्यक्ति पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

जस्टिस गिरीश कठपालिया ने 29 अगस्त को दिए गए अपने फैसले में कहा कि बलात्कार की भयावह पीडा झेलने वाली लड़की के बजाय आरोपी को कलंकित करके सामाजिक मानसिकता आरोपी की दलील पर अदालत सख्त, 10 हजार रुपये जुर्माना

 कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द करने से किया इनकार

कोर्ट ने व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार की कार्यवाही रद्द करने से इनकार कर दिया और उसे दिल्ली हाई कोर्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में 10 हजार रुपये हर्जाने के रूप में जमा करने का निर्देश दिया।

अदालत ने आरोपी के वकील के इस लड़की के साथ अन्याय हुआ है, न

सुलह कर ली है। इस तर्क को पूरी तरह से निराधार मानते हुए कोर्ट ने छोड़ दी थी। कहा कि याचिकाकर्ता (आरोपी) के

# 'सेना भर्ती में महिला-पुरुष वैकेंसी अलग करना है भेदभाव'

हाई कोर्ट का एयरफोर्स को आदेश, खाली छोड़ी गई वैकेंसी पर महिला उम्मीदवार की नियुक्ति की जाए

Prachi.Yadav@timesofindia.com

■ **दिल्ली हाई** कोर्ट ने सेना में भर्ती के लिए महिला और परुष उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग वैकेंसी निर्धारित करने से संबंधित अधिसूचना को लिंग के आधार पर पक्षपात के समान माना

और एक महिला यह ऑर्डर उम्मीदवार को उस 25 अगस्त वैकेंसी पर नियुक्त को पारित करने का एयरफोर्स को निर्देश दिया, किया गया जो उसने पुरुष

उम्मीदवार के लिए मानते हुए खाली

जस्टिस सी हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने माना कि यूपीएससी की 17 मई 2023 की अधिसूचना में 90 वैकेंसी को (महिला) महिला उम्मीदवारों ने सभी परीक्षाएं पास लिए आरक्षित थीं।



के अलावा) पुरुष उम्मीदवारों के लिए निर्धारित नहीं माना जा सकता। ये वैकेंसी महिला और पुरुष दोनों उम्मीदवारों के लिए खुली थीं। याचिकाकर्ता के पास उड़ान भरने के लिए उपयुक्त प्रमाणपत्र होने और सभी दौर की परीक्षाएं पास करने के कारण, नियुक्ति के लिए योग्यता थी। कोर्ट ने कहा कि योग्य

की थीं, इसलिए प्रतिवादियों की ओर से 20 वैकेंसी को खाली छोडना सही नहीं था। उन्हें 20 वैकेसी को महिला उम्मीदवारों से भरना चाहिए। यह ऑर्डर 25 अगस्त को पारित किया गया। बेंच ने कहा कि सप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए फैसलों से बने कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रावधान, विज्ञापन या अधिसूचना की व्याख्या या लागू इस तरह से करने की इजाजत नहीं है जो लिंग के आधार पर पक्षपाती हो।

याचिकाकर्ता अर्चना की ओर से एडवोकेट साहिल मोंगिया ने तर्क दिया कि 17 मई 2023 की अधिसूचना में यह प्रावधान कि कुल 92 वैकेंसी थीं, जिनमें से 2 महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित थीं, इसका मतलब यह नहीं था कि बाकी 90 वैकेंसी पुरुष उम्मीदवारों के

#### 'संख्या पर होगा असर'

केंद्र और अन्य प्रतिवादियों के वकील वरुण प्रताप सिंह ने दलील दी कि संबंधित अधिसूचना में महिला उम्मीदवारों के लिए केवल दो वैकेंसी निर्धारित की गई थी। चयन न केवल एनडीए के माध्यम से दाखिले के लिए बल्कि वायु सेना सामान्य प्रवेश परीक्षा के माध्यम से भी किए जा रहे थे। एनडीए के परिणामस्वरूप महिला उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित सीटों से ज्यादा संख्या में दाखिला देने से AFCAT के परिणामस्वरूप नियुक्ति की हकदार महिला उम्मीदवारों की संख्या कम

## ई-रिक्शा पलटने की वजह से हुई थी लड़की की मौत, ड्राइवर अरेस्ट

■ NBT रिपोर्ट, नई दिल्ली

**नॉर्थ ईस्ट** दिल्ली जाफराबाद में ई-रिक्शा पलटने से बुधवार सुबह अक्षिता पाराशर (8) की मौत हो गई थी। इसके बाद ई-रिक्शा ड्राइवर फरार हो गया था। इस मामले में लापरवाही से मौत और रैश ड़ाइविंग के तहत केस दर्ज किया गया था। पुलिस ने अब आरोपी ई-रिक्शा ड्राइवर शाहनवाज (34) को गिरफ्तार

कर लिया है। आरोपी बाबरपुर इलाके का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक, एसीपी विवेक त्यागी की देखरेख में बनी

था हादसा एसएचओ सुरेंद्र कुमार की टीम ने आरोपी ड्राइवर की तलाश शुरू की।

में रहती थी। फैमिली में माता-पिता मनीष पाराशर आईटी

इंजीनियर हैं। अक्षिता शिवाजी

क्लास में पढ़ती थी। अक्षिता बुधवार सुबह करीब आठ बजे मां और छोटी बहन के साथ ई-रिक्शा में बैठकर स्कल जा रही थी। मौजपुर चौक पर अचानक ई-रिक्शा पलट गया। इसके नीचे दबने से उसकी









# दूरियाँ नजदीकियाँ बना रहे, यात्रियों के अनुभव बेहतर बना रहे

### पिय शेयरधारको

आपकी कंपनी की 26वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। मैं निदेशक मंडल की ओर से आपको निरंतर समर्थन और विश्वास बनाए रखने हेतु धन्यवाद देता हूँ, जो हमारी निरंतर प्रगति और सफलता का आधार है। आज मैं यहाँ आपकी उपस्थिति और निरंतर प्रोत्साहन के लिए आपका तहे दिल से आभारी हूँ, जिसने हमें सदैव और अधिक दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है।

वित्त वर्ष 2024-25 हम सब के लिए गौरवपर्ण वर्ष रहा है, क्योंकि आपकी कंपनी ने एक उल्लेखनीय दोहरा सम्मान हासिल किया है। जुलाई 2024 में इसे प्रतिष्ठित अनुसूची 'ए' सीपीएसई श्रेणी में शामिल किया गया और मार्च 2025 में प्रतिष्ठित नवरत्न का दर्जा प्रदान किया गया-दोनों ही हमारे कार्य-निष्पादन और क्षमता में व्यक्त किए गए भरोसे को दर्शाते हैं। ये मान्यताएँ कंपनी को और अधिक स्वायत्तता प्रदान करेंगी, जिससे वह नए आत्मविश्वास के साथ विस्तार, विविधीकरण और नवाचार

आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 के दौरान, भारत का सेवा क्षेत्र अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धन (जीवीए) में सबसे स्थिर योगदानकर्ता रहा है और वित्त वर्ष 2025 में वर्तमान मूल्यों पर कुल जीवीए में इसका योगदान लगभग 55 प्रतिशत रहा है।

इसके अलावा, भारतीय रेलवे दुनिया का चौथा सबसे बड़ा नेटवर्क है। बढ़ते पैसेंजर ट्रैफिक को देखते हुए, सरकार यात्री सुविधाओं के उन्नयन के लिए विभिन्न कदम उठा रही हैं, जिनमें बुनियादी ढाँचे के विकास पर जोर देकर ट्रेन कैटरिंग सेवाओं में सुधार पर ध्यान केंद्रित करना, और खाद्य उत्पादन एवं सेवा के लिए संपूर्ण जवाबदेही सुनिश्चित करना; अनारक्षित क्षेत्र में डिजिटल माध्यमों से ई-टिकटिंग, पात्र मामलों में 24 घंटे के भीतर रिफंड की स्विधा प्रदान करते हुए रिफंड प्रक्रिया में बदलाव; भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और पसिद्ध ऐतिहासिक स्थलों को प्रदर्शित करने वाली थीम आधारित पर्यटक सर्किट ट्रेनों के रूप में भारत गौरव ट्रेनों की शुरुआत शामिल है।

वर्ष के दौरान, आईआरसीटीसी ने न केवल अपने मुख्य व्यवसायों को मजबूत किया है, बल्कि यह बाजार की बदलती जरूरतों के अनुरूप विकास के नए क्षेत्रों में भी विविधता लेकर आई है। नवाचार, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और ग्राहक-केंद्रित सेवाओं पर जोर देते हुए, कंपनी देश भर में यात्रा के अनुभवों को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इन पहलों ने आईआरसीटीसी को अपनी विश्वसनीयता की विरासत कायम रखने तथा दक्षता और सेवा उत्कृष्टता के नए मानक स्थापित करने में सक्षम बनाया है।

### वित्तीय कार्य-निष्पादन

आपकी कंपनी ने लगातार वित्तीय लचीलापन दिखाया है. और साल-दर-साल बैलेंस शीट मजबूत होती जा रही है। वित्त वर्ष 2025 में, समेकित राजस्व ₹4,675 करोड़ और कर-पश्चात लाभ ₹1,315 करोड़ तक पहुँच गया, जो वित्त वर्ष 2024 की तुलना में राजस्व में लगभग 9.74% और कर-पश्चात लाभ में 18.36% की मजबूत वृद्धि दर्शाता है।

हमें अपने शेयरधारकों का निरंतर मल्य प्रदान करने और जिम्मेदारी तथा विश्वास के साथ वित्तीय मजबती बनाए रखने की अपनी विरासत पर गर्व है। इसी परंपरा को जारी रखते हुए, बोर्ड ने वित्त वर्ष 2025 के लिए प्रति शेयर ₹1 00 के अंतिम लाभांश की सिफारिश की है जो इस वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में अनुमोदन के अधीन है। प्रस्तावित अंतिम लाभांश पहले से वितरित ₹4.00 और ₹3.00 के दो अंतरिम लाभांशों के अतिरिक्त है, जिससे वित्त वर्ष 25 के लिए घोषित कुल लाभांश ₹2.00 प्रति शेयर के अंकित मूल्य पर ₹8.00 हो जाता है। उपरोक्त भुगतान लाभ के लगभग 48.67% के बराबर है, जो भविष्य में अतिरिक्त लाभ प्रदान करने के अभिनव तरीकों की खोज करते हुए शेयरधारक संपत्ति को बढ़ाने की हमारी दीर्घकालिक प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है।" इस अवसर पर मैं अपने सम्मानित शेयरधारकों के साथ वर्ष 2024–25 के लिए प्रमुख खंडवार मुख्य बातें साझा करना चाहता है।

### खानपान और <u>आतिथ्य</u>

खानपान के क्षेत्र में, आईआरसीटीसी ने सेवा की गुणवत्ता में सुधार, नवीन पेशकशों की शुरुआत तथा ट्रेनों और स्टेशनों तक पहुंच का विस्तार करके अपनी उपस्थिति

आपकी कंपनी ने मेल एक्सप्रेस और ट्रेन साइड वेंडिंग के अलावा वंदे भारत, राजधानी, शताब्दी, दुरंतो, तेजस और गतिमान जैसी प्रीमियम ट्रेनों सहित 1,250 से अधिक ट्रेनों के लिए खानपान सेवाओं का प्रबंधन किया और विभिन्न ट्रेन श्रेणियों में प्रतिदिन अनुमानित 16.50 लाख मील्स उपलब्ध कराया। चक्रीय मेनू प्रारूप के कार्यान्वयन के जरिए, आईआरसीटीसी ताजा और पौष्टिक भोजन विकल्पों की एक विस्तृत विविधता प्रदान करता है जो न केवल भारत की समृद्ध पकवान विरासत का नमूना है बल्कि यात्रियों के विविध क्षेत्रीय खानपान के स्वाद को भी साझा करता है।

आईआरसीटीसी द्वारा प्रतिवर्ष परोसे जाने वाले भोजन की मात्रा न केवल इसकी क्षमता को दर्शाती है. बल्कि यात्रियों की बदलती जरूरतों को पूरा करने में इसकी बढ़ती पहुँच को भी दर्शाती है। इसके अलावा, डिजिटल इंडिया को बढावा देने और यात्रियों को सविधाजनक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सक्षम भोजन बिकंग सेवा प्रदान करने के लिए, 'ई-पेंट्री सेवा' का वर्तमान में प्रायोगिक परीक्षण किया जा रहा है। यह सविधा टेनों में पहले से बक किए गए भोजन की डिलीवरी के लिए एक स्मार्ट सॉल्यशन होगी और यह विशेष रूप से मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए

ट्रेनों में उपलब्ध कराए जाने वाले भोजन के अलावा, कंपनी लगभग 300 फूड प्लाजा और फास्ट–फूड इकाइयों का प्रबंधन भी कर रही है। आपकी कंपनी के ई–कैटरिंग सेगमेंट ने प्रतिदिन भोजन की औसत बुकिंग के सर्वकालिक उच्च स्तर को छुआ है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 68% की वृद्धि के साथ 91,543

वित्त वर्ष 2025 के दौरान, 'फूड ऑन ट्रैक' मोबाइल ऐप को बेहतर बनाने के प्रयास किए गए, जिसकी झलक गूगल प्ले स्टोर पर 4.8 रेटिंग प्राप्त करने में मिली। इस रेप को इसके सहज अनुभव, उपयोगकर्ता–अनुकूल

# अध्यक्ष का संदेश

इंटरफेस, रेस्टोरेंट के व्यापक विकल्पों और लंबे मार्गों पर भी त्वरित डिलीवरी के लिए सराहा गया। इन प्रगतियों ने सामूहिक रूप से आईआरसीटीसी की ई–कैटरिंग सेवाओं की विश्वसनीयता और पहुँच को मजबूत किया। आपकी कंपनी रेल यात्रियों के लिए ई-कैटरिंग के अनुभव को बेहतर बनाने के लिए ब्रांडेड कंपनियों के साथ गठजोड की भी लगातार संभावनाएँ तलाश रही है। आगे बढ़ते हुए, आपकी कंपनी प्रौद्योगिकी एकीकरण और डिजिटलीकरण, मेनू पेशकश और भोजन की गुणवत्ता में निरंतर वृद्धि, मोबाइल खानपान इकाइयों के विस्तार और पर्यावरण अनुकूल पैकेजिंग समाधानों को अपनाकर स्थिरता पहल पर अपना ध्यान केंद्रित रखेगी।

अपनी विस्तार रणनीति के तहत, आईआरसीटीसी बजट होटलों के विकास के लिए आरएलडीए के साथ एक समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है। इस पहल का उद्देश्य यात्रियों और पर्यटकों के लिए किफायती और गुणवत्तापूर्ण आवास की बढ़ती माँग परा करना है।

इंटरनेट टिकटिंग इंटरनेट टिकटिंग खंड में, आईआरसीटीसी ने मजबूत डिजिटल पहल के साथ अपनी अग्रणी स्थिति को मजबत किया है. जिससे लाखों यात्रियों के लिए निर्बाध और उपयोगकर्ता–अनुकूल बुकिंग अनुभव सुनिश्चित हुआ है। कंपनी ने 12 मार्च, 2025 को एक मिनट में 30,155 बुकिंग का मील का पत्थर हासिल किया और टिकटिंग

प्लेटफॉर्म ने 6 मार्च, 2025 को 16.17.404 टिकटों के

साथ एक दिन की बुकिंग का रिकॉर्ड बनाया। किंग दक्षता बढ़ाने और प्लेटफॉर्म इंटिग्रिटी की रक्षा के लिए, आईआरसीटीसी ने उन्नत सीडीएन अवसंरचना और एंटी-बॉट तकनीकों का उपयोग किया है। ये रणनीतिक हस्तक्षेप दुर्भावनापूर्ण स्वचालित ट्रैफिक को रोकने और वास्तविक उपयोगकर्ताओं के लिए इष्टतम सिस्टम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किए गए हैं. जिससे सेवा विश्वसनीयता और उपयोगकर्ता विश्वास मजबूत होता है। भविष्य में, आपकी कंपनी एनजीईटी डिसास्टर रिकवरी सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इस पहल को भविष्य की तैयारी, तकनीकी लचीलेपन और निर्बाध ग्राहक अनुभव के अपने व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित करती है।



#### भगतान एग्रीगेटर सेवाओं के लिए सैद्धांतिक मंजरी दे दी हैं। यह सहायक कंपनी आईआरसीटीसी के अपने टिकटिंग पोर्टल पर अपने शुरुआती फोकस से आगे विस्तार करने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है। सैद्धांतिक मंजूरी के आधार पर, कंपनी आरबीआई से अंतिम मंजूरी प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और दस्तावेजों पर काम कर रही है। इस खंड के अंतर्गत अन्य आशाजनक परियोजनाओं में

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि आरबीआई ने

हाल ही में आईआरसीटीसी की पूर्ण स्वामित्व वाली

सहायक कंपनी आईआरसीटीसी पेमेंटस लिमिटेड को

सभी यात्रा आवश्यकताओं के लिए एक ही स्थान पर समाधान के रूप में आईआरसीटीसी एकीकत पोर्टल का शुभारंभ, फेरी टिकटिंग, जहाज टिकटिंग, ट्रेक बुकिंग के लिए ऑनलाइन बुकिंग और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए फ्लाइट टिकट बुकिंग का विस्तार शामिल है।

#### ट्रैवल और टूरिज़्म पर्यटन के क्षेत्र में कंपनी ने किफायती और पीमियम यात्रा पैकेज तैयार करने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाया, जिससे घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिला और

इस क्षेत्र के विकास में योगदान मिला। वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान, आईआरसीटीसी ने 196 भारत गौरव टेनों का संचालन किया, जो किसी भी वित्तीय वर्ष में अब तक की सबसे अधिक संख्या है। विमान पर्यटन क्षेत्र में, कंपनी ने 629 घरेलू विमान पैकेज और 152 अंतर्राष्टीय विमान पैकेज सफलतापर्वक संचालित किए। गोल्डन चौरियट लग्जरी ट्रेन ने भी कोविड के बाद परिचालन फिर से शुरू किया, जिसने

महाकुंभ 2025 के एक हिस्से के रूप में, आईआरसीटीसी ने प्रयागराज में 'आईआरसीटीसी महाकुंभ ग्राम टेट सिटी' के माध्यम से टेंट आवास व्यवसाय में प्रवेश किया। इस पहल को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली, जिससे भविष्य में इसी तरह के उपक्रमों की संभावनाएँ तलाशने का विश्वास पैदा हुआ। इसके अलावा. आईआरसीटीसी को विदेश मंत्रालय की ओर से 27 देशों के प्रतिनिधियों के लिए प्रवासी भारतीय टेन चलाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ जिसे माननीय प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीय दिवस पर हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

वर्ष के दौरान 3 सफल यात्राएँ कीं।

भविष्य की बात करें तो कंपनी की पर्यटन योजनाओं में एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ और प्रतिष्ठित महाराजा एक्सप्रेस और भारत गौरव ट्रेनों के लिए नए रेक की शरुआत करना शामिल है।

आईआरसीटीसी का प्रमुख पैकेज्ड पेयजल ब्रांड, रेल नीर, पूरे भारत में लाखों रेल यात्रियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ और किफायती पेयजल की पहुँच सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। 20 चालू संयंत्रों और 18.40 लाख लीटर प्रतिदिन की स्थापित क्षमता के साथ, रेल नीर देश भर के 400 से अधिक रेलवे स्टेशनों पर अपनी मजबूत उपस्थिति बनाए हुए है। वर्ष के दौरान औसत क्षमता उपयोग 79.23% के सर्वकालिक उच्च

कंपनी क्षमता वृद्धि और नए संयंत्रों की स्थापना के जरिए रेल नीर नेटवर्क का विस्तार करके अपने दीर्घकालिक



विकास पथ को सुदृढ़ करने का लक्ष्य रखती है। यह रणनीतिक पहल न केवल सरक्षित पैकेज्ड पेयजल की बढ़ती मांग को पूरा करती है, बल्कि स्थिरता, ग्राहक संतुष्टि और राष्ट्रव्यापी पहुँच के प्रति आईआरसीटीसी

#### की प्रतिबद्धता को भी पुष्ट करती है। पारदर्शिता और प्रकटीकरण

आईआरसीटीसी में, हमारा मानना है कि मजबत कॉर्पोरेट अभिशासन, पारदर्शिता और जवाबदेही सतत विकास और हितधारकों के विश्वास के आधार स्तंभ हैं। हमारा प्रशासनिक ढाँचा कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व और स्थिरता के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से परिपूर्ण है, जो यह सुनिश्चित करता है कि हमारी प्रगति समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाले। अपने व्यवसाय के प्रत्येक पहलू में नैतिकता, अनुपालन और जिम्मेदारी को एकीकृत करके, हम एक विश्वसनीय संगठन के रूप में आईआरसीटीसी की प्रतिष्ठा को सुदृढ़ करना जारी रखते हैं, साथ ही अपने शेयरधारकों के लिए दीर्घकालिक मूल्य का सृजन करते हैं और राष्ट्र निर्माण में सार्थेक

मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लगातार पाँचवें वर्ष, आपकी कंपनी को वित्त वर्ष 2024–25 के अपने वित्तीय विवरणों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से 'शुन्य' टिप्पणियाँ प्राप्त हुई हैं। यह पारदर्शिता और वित्तीय अखंडता के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए आईआरसीटीसी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इसके अलावा, आपकी कंपनी सेबी विनियमों और डीपीई दिशानिर्देशों के तहत निर्धारित कॉर्पोरेट अभिशासन की आवश्यकताओं का पालन करना जारी रखे हुए है, जो जवाबदेही और हितधारकों के भरोसे पर हमारे अटूट ध्यान को दर्शाता है।

में भारत सरकार, विभिन्न मंत्रालयों, विशेष रूप से रेल मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, नियामको, डीआईपीएएम, डीपीई, राज्य सरकारों, हमारे मूल्यवान ग्राहकों, लेखा परीक्षकों, विक्रेताओं और सभी सहयोगी एजेंसियों के निरंतर सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं अपने साथी बोर्ड सदस्यों को भी कंपनी को मजबूत बनाने में उनके मार्गदर्शन और योगदान के लिए धन्यवाद देता हूँ।

उपर्युक्त के अलावा, मैं अपने शेयरधारकों, निवेशकों, कर्मचारियों और ग्राहकों के प्रति उनके विश्वास और भरोसे के लिए तहे दिल से आभारी हूँ। आपका निरंतर सहयोग हमें हर साल बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करता है।

हम निरंतर रिटर्न प्रदान करने, गवर्नेस मजबूत करने और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य वृद्धि के लिए अपनी अटूट प्रतिबद्धता दोहराते हैं।

जय हिंद

श्री संजय कुमार जैन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक डीआईएनः 09629741

स्थान : नई दिल्ली दिनांक : 30.08.2025



इंडियन रेलवे केटरिंग एण्ड दूरिज़्म कॉरपोरेशन लिमिटेड मारत सरकार का उद्यम-एक नवरत्न सीपीएसई